



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27032025-261986
CG-DL-E-27032025-261986

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 259]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 26, 2025/ / चैत्र 5, 1947

No. 259]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 26, 2025/ CHAITRA 5, 1947

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 मार्च, 2025

फा.सं. एडी-11023/2/2021-एडमिन-आर-एचओ-सीपीसीबी-एचओ – जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) की धारा 12 की उप-धारा (3 क) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, एतद्वारा, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सदस्य सचिव को छोड़कर अन्य अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की भर्ती की पद्धति, सेवा की निबंधन और शर्तें) विनियम, 2021 में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ. – (1) इन विनियमों को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सदस्य सचिव को छोड़कर अन्य अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की भर्ती की पद्धति, सेवा की निबंधन और शर्तें) (संशोधन) विनियम, 2025 कहा जाएगा।

(2) ये विनियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी माने जाएंगे।

2. दिनांक 18 नवंबर, 2021 की अधिसूचना एफ.सं. एडी-11023/2/2021-एडमिन-आर-एचओ-सीपीसीबी-एचओ द्वारा अधिसूचित केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सदस्य सचिव को छोड़कर अन्य अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की भर्ती की पद्धति, सेवा की निबंधन और शर्तें) विनियम, 2021 के क्र.सं.12 में निम्नलिखित विनियम की प्रविष्टि की जाएगी, अर्थात्: -

“(12) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नियमित कर्मचारियों के लिए ऊपरी आयु-सीमा में छूट-

- (1) समूह 'क' एवं 'ख' पदों हेतु सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा. - केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नियमित कर्मचारियों (जिन्होंने तीन वर्षों की निरंतर सेवा पूर्ण कर ली हो), को ऐसे पदों के लिए अधिकतम पाँच वर्ष की आयु में छूट प्रदान की जाएगी, जो समान कार्यक्षेत्र या संबद्ध संवर्ग से संबंधित हों तथा जिनमें उनकी पूर्व सेवा को पद के कुशल निर्वहन हेतु उपयोगी माना जा सके।
- (2) समूह 'ग' पदों हेतु सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा. - केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नियमित कर्मचारियों (जिन्होंने तीन वर्षों की निरंतर सेवा पूर्ण कर ली हो), को ऐसे पदों के लिए अधिकतम चालीस वर्ष की आयु तक की छूट प्रदान की जाएगी, जो समान कार्यक्षेत्र या संबद्ध संवर्ग से संबंधित हों।”

अमनदीप गर्ग, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./1116/2024-25]

नोट: मूल अधिसूचना फा.सं. एडी-11023/2/2021-एडमिन-आर-एचओ-सीपीसीबी-एचओ भारत के राजपत्र, भाग III, खंड 4, में दिनांक 18 नवंबर, 2021 को प्रकाशित की गई थी।

CENTRAL POLLUTION CONTROL BOARD

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th March, 2025

F. No. AD-11023/2/2021-ADMIN-R-HO-CPCB-HO.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3A) of section 12 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974), the Central Pollution Control Board, with the previous approval of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the Central Pollution Control Board (Method of Recruitment, Terms and Conditions of Service of Officers and other Employees other than Member-Secretary) Regulations, 2021, namely:-

1. Short title and commencement. – (1) These regulations may be called the Central Pollution Control Board (Method of Recruitment, Terms and Conditions of Service of Officers and other Employees other than Member-Secretary) (Amendment) Regulations, 2025.

(2) These regulations shall be deemed to have come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Pollution Control Board (Method of Recruitment, Terms and Conditions of Service of Officers and other Employees other than Member-Secretary) Regulations, 2021 notified vide F. No. AD-11023/2/2021-ADMIN-R-HO-CPCB-HO dated 18th November, 2021, the following regulation shall be inserted at S.No. 12, namely:-

“(12) Relaxation in Upper Age-Limit for CPCB Regular Employees.-

- (1) Age Limit for Direct Recruits for Group A and B posts. - Relaxable for CPCB Regular Employees (with three years of continuous service) up to five years for posts which are in same line or allied cadres and where a relationship could be established that the service already rendered in a particular post will be useful for the efficient discharge of the duties of post.
- (2) Age Limit for Direct Recruits for Group C posts. - Relaxable for CPCB Regular Employees (with three years of continuous service) up to forty years for posts which are in the same line or allied cadres.

AMANDEEP GARG, Chairman

[ADVT.-III/4/Extty./1116/2024-25]

Note : The Principal Notification was published in the Gazette of India, Part III, Section 4 vide notification number F.No. AD-11023/2/2021-ADMIN-R-HO-CPCB-HO. dated 18th November, 2021.